



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 1977/श्रावण 19, 1 99

No. 352] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 1977/SRAVANA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th August 1977

**S.O. 612(E)/18FA/IDRA/77.**—Whereas Shree Shubhlaxmi Mills Limited, Cambay (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) is being wound up under the supervision of the Gujarat High Court and the business of the company is not being continued,

And whereas the Central Government had, in respect of the said industrial undertaking, caused an investigation to be made by a body of persons under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas on an application made by the Central Government to the Gujarat High Court for permission to treat the report of the investigation committee under section 15 of the said Act as a report under section 15A of the said Act, the Gujarat High Court has, by its Order dated 15th July, 1977, granted such permission;

And whereas the Central Government being of the opinion that there are possibilities of running or re-starting the said industrial undertaking and that the industrial undertaking should be run or restarted, made an application under sub-section (1) of section 18FA of the said Act to the Gujarat High Court praying for permission to appoint the Gujarat State Textile Corporation Limited, to take over the management of the said industrial undertaking and that the Gujarat High Court has, by its Order dated the 22nd July, 1977, granted the said permission,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation Limited (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, namely, Shree Shubhlaxmi Mills Limited, Cambay, subject to the following terms and conditions, namely—

- (i) the authorised person shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government,
- (ii) the authorised person shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette,
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers it necessary to do so

2 This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette

[No F.3/10/77-CUC]

G. N. MEHRA, Jt Secy

### उद्योग मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1977

का० प्रा० 612(अ)/18 चक आई०डी०आर०ए० 77.—श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, कैम्बे (जिसे इसमें इस के पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) गुजरात उच्च न्यायालय के परीक्षणाधीन परिसमाप्त की जा रही है, और कंपनी का कारबार चालू नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त औद्योगिक उपक्रम की बाबत, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 के अधीन व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा अन्वेषण कराया था ,

और केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय को किए गए इस आशय के आवेदन पर कि उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन अन्वेषण समिति की रिपोर्ट को उक्त अधिनियम की धारा 15क के अधीन रिपोर्ट मान लेने की अनुज्ञा दी जाए, गुजरात उच्च न्यायालय ने 15 जुलाई, 1977 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे दी थी ,

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को चलाने या पुनः आरम्भ करने की संभावनाएँ हैं और औद्योगिक उपक्रम को चलाया अथवा पुनः आरम्भ किया जाना चाहिए, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (1) के अधीन गुजरात उच्च न्यायालय को यह प्रार्थना करते हुए आवेदन किया था कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में ले लेने के लिए गुजरात स्टेट टैक्स्टाइल कार्पोरेशन की नियुक्ति की अनुज्ञा दी जाए और गुजरात उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश तारीख 22 जुलाई, 1977 में उक्त अनुज्ञा दे दी थी ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 चक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात स्टेट टक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड (जिसे इससे इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) को उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, कैम्बेज का प्रबन्ध, निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् —

- (i) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा ;
- (ii) प्राधिकृत व्यक्ति, राजपत्र में हुए आदेश के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक के लिए, पद ग्रहण करेगा ;
- (iii) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो, प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त कर सकती है ।

2. यह आदेश राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ हो कर पांच वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा ।

[संफा० 3 10 77-सी० 1०सी०]

जी० एन० मेहता, संप्रवृत्त मन्त्रि ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977

